

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि, 2008 में निम्न संशोधन करती है:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 (ग) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

“मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति” से अभिप्रेत है, भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरुद्ध किये गये व्यक्ति “लोकतंत्र सैनानी” कहलाएंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सी. बी. पडवार**, उपसचिव.